



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]
No. 213]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 1 मार्च, 2007/फाल्गुन 10, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH, 1, 2007/PHALGUNA 10, 1928

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2006

का.आ. 302(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के निबन्धनों के अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के अधीन जनगणना कार्य निदेशालयों, बिहार, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिए गए निदेशालयों में उनके अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों के संबंध में केन्द्रीय नागरिक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम और पदनाम सर्वश्री	पता एवं दूरभाष संख्या एवं ई-मेल पता
1.	आर. के. राम उप निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार ज्वाला भवन, ईस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना-800001 दूरभाष: 0612-2532479 dcobihar@sancharnet.in
2.	एम. सत्य बाबू सहायक निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, गोवा 'जनगणना भवन' प्लॉट नं. 22, ईडीसी काम्प्लेक्स, पाटो, पणजी-403001 दूरभाष: 0832-2438613 dcogoa@sancharnet.in
3.	करण सिंह उप निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा जनगणना भवन, प्लॉट नं. 2बी, एम. मार्ग, पो.बा. नं. 764, सेक्टर-19ए, चंडीगढ़-160019 दूरभाष: 0172-2542106 dcohy@chd.nic.in

क्रम सं.	अधिकारी का नाम और पदनाम सर्वश्री	पता एवं दूरभाष संख्या एवं ई-मेल पता
4.	एम.एच.आर. खासीमी उप निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, कर्नाटक 7वां तल, ई और एफ विंग, केन्द्रीय सदन, 17वां मुख्य मार्ग, II ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलौर-560034 दूरभाष: 080-25538973 dcokar@vsnl.com
5.	पी. गिरिजा उप निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, केरल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, पूनकुलम, वेल्लायनी पो.ओ. तिरुवन्तपुरम-695522 दूरभाष: 0471-2481860 dcokar@kerala.nic.in
6.	ए. जी. भास्करन संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, मध्य प्रदेश जनगणना भवन, अरैया हिल्स, जेल रोड, भोपाल-462004 दूरभाष: 0755-2555771 mpcensus@dcobpl.mp
7.	आनन्द निगम उप निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान जनगणना भवन, 6बी, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 दूरभाष: 0141-2707090 dcoraj@raj.nic.in
8.	पलाश चन्द्र कुमार उप निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, सिक्किम आर्मी कन्वॉय ग्राउंड के समीप, तादोंग, पो.ओ. गंगतोक-737102 दूरभाष: 03592-231109 dco@sikkim.sik.nic.in
9.	पी.के. मजूमदार उप निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, पश्चिम बंगाल 20वीं, अब्दुल हमिद स्ट्रीट, 10वां तल, कोलकाता-700069 दूरभाष: 033-22201227 dcowb@sancharnet.in
10.	बी. एम. तम्हाणे सहायक निदेशक, जनगणना कार्य	जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सी.जी.ओ. काम्पलैक्स (हिमाद्री) लोंगवुड शिमला-171001 दूरभाष: 0177-2651419 dcchpsml@yahoo.co.in

[सं. 9/71/2005-सी.डी. सेन]

आर. सी. सेठी, भारत के अपर महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2006

S.O. 302(E).—In partial modification of the Notification dated 14th October, 2005 in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers are appointed as Central Public Information Officers in the Directorate of Census Operations, Bihar, Goa, Haryana, Karanataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Sikkim, West Bengal and Himachal Pradesh under the Office of the Registrar General, India, in respect of all the subject matter within their purview against their name :

Sl. No.	Name and Designation of the Officer S/ Shri	Address, Telephone Number & e-mail address
1.	R.K. Ram, Deputy Director of Census Operations	DCO, Bihar, Jawala Bhawan, East Boring Cana Road, Patna-800001 Tel: 0612-2532479 dcobihar@sancharnet.in
2.	M. Satya Babu Assistant Director of Census Operations	DCO, Goa 'Census House', Plot No. 22, EDC Complex, Patto, Panaji-403001 Tel: 0832-2438613 dcogoa@sancharnet.in
3.	Karan Singh Deputy Director of Census Operations	DCO, Haryana Janganana Bhawan, Plot No. 2B, M. Marg, P.B. No. 764, Sector-19A, Chandigarh-160019 Tel: 0172-2542106 Dcohry@chd.nic.in
4.	M.H.R. Khasimi, Deputy Director of Census Operations	DCO, Karnataka 7th Floor, 'E' & 'F' Wing, Kendriya Sadan, 17th Main Road, II Block Koramangala, Bangalore-560034 Tel: 080-25538973 dcokar@vsnl.com
5.	P. Girija, Deputy Director of Census Operations	DCO, Kerala CGO Complex, Poonkulam Vellayani P.O. Thiruvanthapuram-695522 Tel: 0471-2481860 dcoker@kerala.nic.in
6.	A. G. Bhaskaran, Joint Director of Census Operations	DCO, Madhya Pradesh Janganana Bhawan, Area Hills, Jail Road Bhopal-462004 Tel: 0755-2555771 Mpcensus@ dcobpl.mp
7.	Anand Nigam, Deputy Director of Census Operations	DCO, Rajasthan Janganana Bhawan 6B, Jhalana Doongari, Jaipur-302004 Tel: 0141-2707090 dcoraj@raj.nic.in
8.	Palash Chandra Coomar, Deputy Director of Census Operations	DCO, Sikkim Near Army Convoy Ground, Tadong, P.O. Gangtok-737102 Tel: 03592-231109 dco@sikkin.sik.nic.in
9.	P.K. Majumdar, Deputy Director of Census Operations	DCO, West Bengal 20B, Abdul Hamid Street, 10th Floor Kolkata-700069 Tel: 033-22201227 dcowb@sancharnet.in
10.	V.M. Tamhane, Assistant Director of Census Operations	DCO, Himachal Pradesh CGO Complex, (Himadari) Longwood, Shimla-171001 Tel: 0177-2651419 Dcohpsml@yahoo.co.in

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2007

का.आ. 303(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के निबन्धनों के अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिए गए विषयों के संबंध में केन्द्रीय नागरिक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम और पदनाम	प्रभाग	पता एवं दूरभाष संख्या	विषय
1.	श्री सी. चक्रवर्ती, संयुक्त निदेशक	ब.रा.प.प. यूनिट	2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष : 23387209	बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने में संबंधित मामले
2.	श्रीमती रेणुका रवीन्द्रन, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	जनअध्ययन प्रभाग	सेवा भवन, प्रथम तल, नार्थ विंग, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26101527 एक्स : 117	जनगणना और उसके जनसांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त प्रजननता और मृत्यु दर के आंकड़े, जनसंख्या प्रक्षेपण और अनुमान

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली में उपर्युक्त अधिकारियों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी इनके संबंधित प्रभागों के प्रभाग प्रमुख होंगे।

[सं. 9/71/2005-सी.डी. सेन]

आर. सी. सेठी, भारत के अपर महारजिस्ट्रार

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2006

S.O. 303(E).—In partial modification of the Notification dated 14th October, 2005 in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers are appointed as Central Public Information Officer in the office of the Registrar General, India (ORGI), New Delhi in respect of the subject matter indicated against their name :

SL No.	Name and Designation of the Officer	Division	Address, & Telephone Number	Subject Matter
1.	Shri C. Chakravorty, Joint Director	MNIC Unit	2/A, Man Singh Road, New Delhi-110011 Tel: 23387209	Matters relating to issue of Multipurpose National Identity Card.
2.	Mrs. Renuka Ravindran, Senior Research Officer	Demography Division	Sewa Bhawan, 1st Floor, North Wing, R. K. Puram, New Delhi-110066 Tel: 26101527 Ext. 117	Data on Fertility and Mortality from Census and demographic analysis thereon, population projections and estimates.

The appellate authority for the above mentioned officers are their respective Divisional Heads in the Office of the Registrar General of India, New Delhi.

[No. 9/71/2005-CD CEN]

R. C. SETHI, Addl. Registrar General, India